



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 13.11.20

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:-

थाना धौरहरा जनपद खीरी (दिनांक 13.11.2020)



वादी श्री आनन्द गिरि पुत्र बंशी गिरि निवासी कफारा थाना धौरहरा ने सूचना दी कि उनका बचत खाता गांव के बाजार में स्थित बैंक ऑफ बडौदा मे संचालित है और वह अपना लेन-देन कभी-कभी Banking Correspondents Point (BCP) KAFARA से भी करते है जिसका संचालन सर्वेश, अंकित, चन्द्रप्रकाश व अमरीश करते है। दिनांक 24.10.20 को उपरोक्त खाते से 10000 रुपये अवैध रूप से धोखाधड़ी कर निकाल लिए गए है।

सूचना पर थाना धौरहरा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना के क्रम में प्रकाश मे आया कि BCP KAFARA के उपरोक्त संचालक बैंक ऑफ बडौदा के विभिन्न खाता धारकों के खाते से धोखाधड़ी व जालसाजी करके इलेक्ट्रानिक उपकरणों की सहायता से धनराशि निकालते है। आज दिनांक 13.11.20 को समय 06:40 बजे अभियुक्तगण उपरोक्त को मय इलेक्ट्रानिक उपकरण, मोबाइल व रुपयों सहित गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-

1. अंकित पुत्र नरेन्द्र वर्मा निवासी सेमरी थाना धौरहरा खीरी
2. सर्वेश पुत्र ज्वाला प्रसाद वर्मा निवासी महादेव थाना धौरहरा खीरी
3. चन्द्रप्रकाश पुत्र राम बडई निवासी सेमरी थाना धौरहरा खीरी

बरामदगी:-

01 अदद लेपटॉप, 01 इम्पेशन डिवाइस, 01 लीड, 01 रजिस्टर, 03 मोबाइल व 10625 रुपये नगद

थाना कोतवाली जनपद खीरी (दिनांक 13.11.2020)



पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री विजय ढुल के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व शांतिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 13.11.2020 को कोतवाली सदर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए मुखबिर की सूचना पर भंसड़िया क्रासिंग देवकली रोड के पास से 02 अभियुक्तों को चोरी की 02 सुपर स्लेंडर मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 02 अवैध तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस भी बरामद हुए हैं, जिसके संबंध में आर्म्स एक्ट की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-

1. मोहित पुत्र रामासरे नि० मोहल्ला सुभाषनगर थाना कोतवाली सदर खीरी
2. बल्लू गिरि पुत्र राधेश्याम गिरि नि० मोहल्ला सुभाषनगर थाना कोतवाली सदर खीरी

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास -

मु०अ०सं० 1222/20 धारा 379/411 भादवि०
मु०अ०सं० 1223/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट
मु०अ०सं० 1224/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट

बरामदगी का विवरण:-

02 अदद सुपर स्लेंडर मोटरसाइकिल
02 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस

थाना मैगलगंज पुलिस द्वारा जुआ खेलते हुए 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, 52 ताश के पत्ते व 3930 रुपये नगद बरामद

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व समाज विरोधी अवैध क्रिया-कलापों के विरुद्ध चलायें जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 12.11.2020 को थाना मैगलगंज पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 04 अभियुक्तों 1. योगेश कुमार पुत्र महेश कुमार 2. जितेन्द्र पुत्र सुरेन्द्र कुमार नि0गण अब्बासपुर थाना मैगलगंज खीरी 3. धर्मपाल पुत्र अशफर्ीलाल 4. धर्मेश कुमार पुत्र रामशरण नि0गण अलियापुर थाना मैगलगंज जनपद लखीमपुर खीरी को मय ताश के 52 पत्ते व 3930 रू0 रूपयों के साथ गिरफ्तार किया गया , इस संबंध में अभियुक्तों के विरुद्ध थाना हाजा पर मु0अ0सं0 593/20 धारा 13 जुआ अधि0 पंजीकृत कर कार्यवाही की गई।

थाना सिंगाही पुलिस द्वारा जुआ खेलते हुए 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, 52 ताश के पत्ते व 2900 रुपये नगद बरामद

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व समाज विरोधी अवैध क्रिया-कलापों के विरुद्ध चलायें जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 12.11.2020 को थाना सिंगाही पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 04 अभियुक्तों 1. जुम्मन पुत्र बशीर 2. रोजअली पुत्र कमरूद्दीन 3. आमीन पुत्र जबर अली नि0गण कस्बा व थाना सिंगाही खीरी 4. रामनिवास पुत्र सत्रोहनलाल 5. शफीक पुत्र खलील नि0गण बालाग्राम थाना सिंगाही जनपद लखीमपुर खीरी को मय ताश के 52 पत्ते व 2900 रू0 रूपयों के साथ गिरफ्तार किया गया , इस संबंध में अभियुक्तों के विरुद्ध थाना हाजा पर मु0अ0सं0 412/20 धारा 13 जुआ अधि0 पंजीकृत कर कार्यवाही की जा रही है।

थाना मैलानी पुलिस द्वारा जुआ खेलते हुए 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, 52 ताश के पत्ते व 2820 रुपये नगद बरामद

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व समाज विरोधी अवैध क्रिया-कलापों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 12.11.2020 को थाना मैलानी पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 04 अभियुक्तों 1. ओमप्रकाश पुत्र छोटेलाल 2. राजू पुत्र ओमप्रकाश 3. जगमोहन 4. उमाशंकर पुत्रगण सुन्दर नि०गण कोरियानी थाना मैलानी जनपद लखीमपुर खीरी को मय ताश के 52 पत्ते व 2820 रू० रूपयों के साथ गिरफ्तार किया गया, इस संबंध में अभियुक्तों के विरुद्ध थाना हाजा पर मु०अ०सं० 359/20 धारा 13 जुआ अधि० पंजीकृत कर कार्यवाही की जा रही है।

थाना खीरी पुलिस द्वारा जुआ खेलते हुए 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, 52 ताश के पत्ते व 18700 रुपये नगद बरामद

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व समाज विरोधी अवैध क्रिया-कलापों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना खीरी पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 03 अभियुक्तों 1. शरफुद्दीन पुत्र निजामुद्दीन 2. मुन्ना पुत्र मंगू अली निवासी गण ग्राम बाजूडीहा थाना कोतवाली सदर खीरी 3. मो० रफी पुत्र बकरीदी निवासी ग्राम नौरंगाबाद थाना कोतवाली सदर खीरी को मय ताश के 52 पत्ते व 18700 रू० रूपयों के साथ गिरफ्तार किया गया, इस संबंध में अभियुक्तों के विरुद्ध थाना खीरी पर मु०अ०सं० 581/20 धारा 13 जुआ अधि० पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए निम्नलिखित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

- थाना ईसानगर पुलिस द्वारा अ0सं0 323/18 धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट में वारण्टी अभियुक्त बच्चालाल पुत्र मैकू नि0 चहलार थाना ईसानगर खीरी को गिरफ्तार किया गया।

अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण एवं बिक्री के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **90 लीटर अवैध कच्ची शराब, 02 शराब भट्टी बरामद कर 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार** किया गया है।
विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	थाना	बरामदगी	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या
1.	थाना मोहम्मदी	40 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
2.	थाना सम्पूर्णानगर	40 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
3.	थाना सिंगाही	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
	कुल योग	90 लीटर	05 अभियुक्त गिरफ्तार